



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 श्रावण 1946 (श10)

(सं० पटना 753) पटना, बुधवार, 7 अगस्त 2024

परिवहन विभाग

अधिसूचना

7 अगस्त 2024

सं० 03/परि० (योजना)-14-14/2018 (पार्ट-I) 9613—परिवहन विभाग की अधिसूचना सं०-5732, दिनांक-05.09.2018 द्वारा अधिसूचित तथा अधिसूचना सं०-6480 दिनांक-09.09.2020 द्वारा यथा संशोधित मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित थी। इस योजना के तहत राज्य के सभी पंचायतों में विधिवत चयनित 7 लाभुकों को अनुमान्य वाहन की खरीद पर, खरीद मूल्य का 50% अथवा अधिकतम 1.00 (एक) लाख रूपए का अनुदान का प्रावधान है।

2. उक्त योजना के अंतर्गत ही अधिसूचना सं०-6297, दिनांक-08.08.2019 के द्वारा लाभुकों को ई-रिक्शा के क्रय की स्थिति में खरीद मूल्य का 50% अथवा अधिकतम 70,000/—(सत्तर हजार) रू० अनुदान का प्रावधान है।

3. कोविड-19 के समय संक्रमित व्यक्तियों के ईलाज हेतु उन्हें स्वास्थ्य केन्द्रों तक समुचित परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधिसूचना सं०-2740, दिनांक-11.05.2021 द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत प्रति प्रखंड अधिकतम 02 लाभुकों को एम्बुलेंस के क्रय पर क्रय मूल का 50% परन्तु अधिकतम 2.00 लाख (दो लाख) रूपये अनुदान का भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

4. उक्त योजना के अंतर्गत सामान्य वाहन/ई-रिक्शा/एम्बुलेंस क्रय हेतु निर्धारित लक्ष्य 57551 के विरुद्ध 45000 लक्ष्य की प्राप्ति हुई है तथा लाभुकों को अनुदान का भुगतान किया जा चुका है। स्वीकृत शेष राशि से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी।

5. मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत शेष 12500 लक्ष्य की प्राप्ति हेतु योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2025-26 तक विस्तारित करने एवं शेष लक्ष्य की प्राप्ति पूर्व से स्वीकृत इस योजना की राशि से ही किए जाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की दिनांक-06.08.2024 को हुयी बैठक में मद संख्या-37 पर दी गयी है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
संजय कुमार अग्रवाल,  
सरकार के सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 753-571+10-डी0टी0पी0  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>